

01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में श्री अरुण चन्द क्षेत्राधिकारी बाँसी के निर्देशन में थानाध्यक्ष श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में थाना स्थानीय पर थाना क्षेत्र के सभ्रांत व्यक्तियों को एकत्र कर पीस कमेटी की गोष्ठी की गई। गोष्ठी में त्यौहार छठ पूजा को कोरोना महामारी के दृष्टिगत सामाजिक दूरी बनाकर पर्व को सकुशल संपन्न कराने एवं कार्तिक पूर्णिमा में ककराही पुल पर मेले का आयोजन न करने की अपील किया गया।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18.11.2020

“वांछित अभियुक्त गिरफ्तार” थाना-इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के द्वारा “अपराध व अपराधियों” के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री मायाराम वर्मा के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव मय हमराह द्वारा आज दिनांक 18.11.2020 को मुखबीर के सूचना के आधार पर मु.अ.सं. 212/2020 धारा 376, 506 भा.द.वि व 3/4 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त स्वयं कौशल पुत्र विश्वनाथ कौशल, साकिन पटखौली नानकार, थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को समय सुबह 04.00 बजे ग्राम पटखौली नानकार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
2. आरक्षी बेचन यादव थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
3. आरक्षी सुरज मौर्या थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में श्री अरुण चन्द, क्षेत्राधिकारी बाँसी के निर्देशन में थानाध्यक्ष श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव थाना जोगिया उदयपुर के निर्देशन में आज दिनांक 18.11.2020 को उपनिरीक्षक श्री पवन कुमार मय हमराह कांस्टेबल अरविंद यादव व स्वाट टीम द्वारा अभियुक्त अकरम अली पुत्र मुन्नन साकिन शाहपुर उर्फ सैईयापुर थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से पिकअप नंबर UP 55 T 7463 पर लदा 26 कुंटल अवैध नेपाली मटर बरामद कर अंतर्गत धारा 11 कस्टम एक्ट तहत कार्यवाही किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18.11.2020

एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत की कार्यवाही में 15 शोहदे पकड़े गये ।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 15 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी ।

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 18.11.2020 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा समस्त थानो की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास, पार्क तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी। इस दौरान 15 शोहदे पकड़े गये । शोहदो द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया ।

जनपद के विभिन्न कस्बों और गावो तथा विद्यालयो मे जागरूकता अभियान चलाया गया | जिसके अंतर्गत जनपद में सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा और यातायात नियमों के सम्बन्ध जानकारी दी गयी ।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती संध्यारानी तिवारी प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04- महिला आरक्षी अमिता पटेल एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06- विभिन्न थानो पर गठित एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री अजय श्रीवास्तव एवं प्रभारी निरीक्षक श्री शमशेर बहादुर सिंह थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर के निर्देशन में दिनांक 17.11.2020 को उ.नि. लीलाधर यादव मय टीम द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय भेजा गया ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18.11.2020

आज दिनांक 18/11/20 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर व उच्च अधिकारी गण द्वारा आगामी त्यौहार छठ पूजा के दृष्टिगत दिए गए आदेशों निर्देशों के संबंध में प्रभारी निरीक्षक श्री शमशेर बहादुर सिंह, थाना गोलहौरा जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना स्थानीय पर गोष्ठी की गई एवं आदेशों-निर्देशों से अवगत कराया गया अक्षरशः पालन कराने हेतु हिदायत किया गया व त्योहार धनतेरस, दीपावली ,भाई दूज सकुशल संपन्न कराने के संबंध में धन्यवाद प्रकट किया।

07

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18.11.2020

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश का क्रम मे एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण मे तथा श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी यातायात सिद्धार्थनगर दिशा निर्देशन में यातायात कर्मचारियों द्वारा यातायात जागरूकता माह नवम्बर के दौरान सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के बच्चों से यातायात पर निबंध व कला प्रतियोगिता कराई गई तथा यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की गई साथ ही साथ पोस्टर पंपलेट का भी वितरण किया गया ।

08

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 18.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रदीप कुमार यादव के निर्देशन में व थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.11.2020 को थाना क्षेत्र में अवैद्ध तस्करी के रोक थाम के क्रम उ0नि0 श्री सतीश कुमार सिंह द्वारा 13 बोरी युरिया कीमती करीब 4550 रूपया बरामद कर 11 कस्टम एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी ।